

MINDA CORPORATION LIMITED

(Group Corporate Office)

July 07, 2022

The Officer-In-Charge (Listing)
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),

Mumbai - 400 051 Symbol: MINDACORP Head - Listing Operations, BSE Limited,

P.J. Towers, Dalal Street, Fort,

Mumbai – 400 001 Scrip Code: 538962

Sub: Submission of Newspaper Clippings

Ref: Regulation 30 and 47 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Please find enclosed herewith newspaper clippings published in English (Financial Express) and Hindi (Jansatta) on 07.07.2022 informing about the completion of dispatch of Notice of the 37th Annual General Meeting along with Annual Report for the Financial Year 2021-22.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Minda Corporation Limited

Pardeep Mann Company Secretary

Membership No A13371

Encl: Clippings

MINDA CORPORATION LIMITED (GROUP CORPORATE OFFICE)

DELHI

CIN: L74899DL1985PLC020401A

D-6-11, Sector 59, Noida – 201301, U.P., India

Tel.: +91-120-4787100 Fax: +91-120-4787201

Registered office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052

Website: www.sparkminda.com

FINANCIAL EXPRESS

SPARK MINDA

FEDERAL BANK

Agra Branch: 6, Raghunath Nagar, (Little Wing Campus), M. G. Road, Agra, Uttar Pradesh-282002 Ph No.0562-2522955 Email-agr@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Where as the undersigned being the Authorised Officer of the Federal Bank Ltd.

under the Securitization& Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as Act) and in exercise of powers conferred under section 13(12) of the said Act read with rule 3 of the Security Interes (Enforcement) Rules, 2002(hereinafter referred to as Rules) issued a demand notice dated 31/08/2019 calling upon the borrowers: (1) Mr Ravi Prakash Gupta S/o Mr Santosh Prakash Gupta, carrying on business in the name and style of M/s. New Balaji Store at 2/86, Khandari Chauraha, Hanuman Mandir, Agra, Utta Pradesh -282002 (2) Mr. Rajeev Prakash Gupta S/o Mr. Santosh Prakash Gupta Both residing at 31, Kunwar Colony, Khandari, Agra, Uttar Pradesh-282001, to repar the amount mentioned in the notice being ₹ 19,31,053.59 (Rupees Nineteen Lakh Thirty One Thousand Fifty Three and Fifty Nine paisa Only) Under CASH CREDITS - A/c no - 12125500014817 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules on this the

The borrower/s' attention is invited to the provisions of section 13 (8) of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties) The borrower in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Federal Bank Ltd. for an amount₹ 25,51,541.15 (Rupees Twenty Five Lakh Fifty One Thousand Five Hundred Forty and paisa Fifteen Only) as on 30-06-2022 plus costs and other charges thereon under your Federal Cash Credits Account no - 12125500014817.

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of Property bearing Property No 5/37, Western Part situated at MadiaKatra Tehsil Sadar , District : Agra , Uttar Pradesh state having an area measuring 95.54 sq.meters , together with all buildings existing and or to be constructed ,bounded on the East :By property of AnjuDiwakar ,West : By other property , North : By Road and South : By Railway Line

Place: AGRA Date: 02.07.2022

2ND Day of July 2022.

Authorised Officer under SARFAESI Act. (The Federal Bank Ltd)



BANARAS BEADS LIMITED

Ph:0542-2370161-64(4lines) E-mail:rksingh@banarasbead.com,investor@bblinvestor.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that Pursuant to the provisions of

Section 124 of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 ("the Rules"), as amended the Dividend declared during the F.Y. 2014-15, which remained unclaimed for the period of seven years and IEPF due date will be credited to the IEPF authority on September 30, 2022 and date of transfer of shares to IEPF demat account will be 5th October, 2022. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules. In compliance to the Rules, the Company has communicated

individually to the concerned shareholders and the detail of such shares liable to be transferred to IEPF Authority during the financial year 2022-23, made available on its website http://www.bblinvestor.com. Shareholders are requested to refer the website of the Company to verify the details of shares liable to be transferred to IEPF.

Shareholders are requested to claim the unpaid/unclaimed Dividend for F.Y. 2014-15 and onwards latest by 17th September, 2022. It may please be noted that if Dividend remains unclaimed/unpaid as on that date, the Company will proceed to initiate action(s) for transfer of share(s) of such shareholder(s) by the said due date, without any further notice as per the revised procedure laid down in the Amended

The concerned shareholder(s) holding the share(s) in physical form and whose share(s) are liable to be transferred to IEPF may please note that the Company would be issuing new Share Certificate(s) in lieu of Original Share Certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer in DEMAT Account of IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share Certificate(s) which are registered in your name(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of such shareholder(s) holding share(s) in demat form, the transfer of share(s) in DEMAT Account of the IEPF Authority will be effected by the Company through the respective Depository.

The Shareholders may please note that the above full details of list of such shareholders like Folio No., DPID, CLID, number shares, address etc. uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of Issue of New Share Certificate(s) for the purpose of transfer of shares to the DEMAT Account of IEPF Authority pursuant to the Amended Rules.

Any further Dividend(s) on such share(s) shall be credited to IEPF No claim shall lie against the Company in respect of Unclaimed Dividend and the shares transferred to IEPF. On transfer of Dividends and Shares to IEPF, the shareholder(s) may claim the same by making an application to IEPF in Form IEPF-5 as per the Rules. The said form is available on the Company's website, viz. http://www.bblinvestor.com and the website of IEPF, viz. http://www.iepf.gov.in.

For any queries on the above matter, Shareholder(s) are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("the

RTA") as mentioned below M/s Mas Services Limited, Unit: Banaras Beads Limited, T-34, Okhla Industrial Area, Phase – II, New Delhi - 110 020,


Tel.: 011-26387281/82/83, Website: http://www.masserv.com For Banaras Beads Limited

Place: Varanasi

(R.K. Singh)

Company Secretary/ Compliance Officer Date: 05-07-2022

गंजाब एएड सिंघ बैंक



BRANCH: 43-44, TILAK NAGAR, NEW DELHI - 110018 TELEPHONE: 011-41068250 E-MAIL: D0038@psb.co.in

POSSESSION NOTICE

(For Immovable Property) [See rule- 8(1)]

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Punjab & Sind Bank, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. issued a demand notice dated 02.03.2022 calling upon the borrower(s) & Guarantor(s) (1) Smt. Harjeet Kaur W/o Sh. Harjeet Singh (Borrower), (2) Sh. Harjeet Singh S/o Sh. Mehar Singh (Borrower), (3) Sh. Bhupinder Singh S/o Sh. Harbhajan Singh (Guarantor) to repay the amount mentioned in notice being for Rs. 15,48,665.21 (Rupees Fifteen Lakh Forty Eight Thousand Six Hundred Sixty Five and Paise Twenty One Only) within 60 days from the date of receipt of

The borrower/ guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 02nd day of July 2022 at 1.00 PM. The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned

not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Punjab & Sind Bank (B.O: Tilak Nagar, New Delhi), for an amount of Rs. 15.48.665.21 (Rupees Fifteen Lakh Forty Eight Thousand Six Hundred Sixty Five and Paise Twenty One Only) as on 28.02.2022 along with further cost, interest and expenses etc...

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

SCHEDULE OF PROPERTY

Description of the Immovable Property:-

ALL THAT PART AND PARCEL OF THE IMMOVEABLE MORTGAGED PROPERTIES:-

1. PROPERTY NO. WZ-61-A, WITH ALL ITS TERRACE/ROOF RIGHTS, AREA MEASURING 37.1/2 SQ. YARDS, OUT OF KHASRA NO. 16/8, BUILT ON PLOT NO. 254 SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE KESHOPUR DELHI STATE COLONY KNOWN AS GURU NANAK NAGAR NEW DELHI 110018 VIDE REGD NO. 1043 IN ADDITIONAL BOOK NO. 1, VOL NO. 17318 ON PAGE 180 TO 185 DATED 15.01.2010 IN THE NAME OF SMT. HARJEET KAUR AND SH. HARJEET

PROPERTY NO. WZ-61-A, GROUND FLOOR, FIRST FLOOR, WITHOUT ROOF/TERRACE RIGHTS. AREA MEASURING 37 SQ. YARDS. OUT OF KHASRA NO. 16/8, BUILT ON PLOT NO. 254 SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE KESHOPUR DELHI STATE COLONY KNOWN AS GURU NANAK NAGAR NEW DELHI 110018 VIDE REGD NO. 1044 IN ADDITIONAL BOOK NO. 1 VOL NO. 17318 ON PAGE 186 TO 192 DATED 15.01.2010 IN THE NAME OF SMT.

HARJEET KAUR AND SH. HARJEET SINGH. PROPERTY NO. WZ-61-A. SECOND FLOOR. WITH ROOF/TERRACE RIGHTS, AREA MEASURING 37.1/2 SQ. YARDS, OUT OF KHASRA NO. 16/8, BUILT ON PLOT NO. 254 SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE KESHOPUR DELHI STATE COLONY KNOWN AS GURU NANAK NAGAR NEW DELHI 110018 VIDE REGD NO. 1042 IN ADDITIONAL BOOK NO. 1, VOL NO. 17318 ON PAGE 174 TO 179 DATED 15.01.2010 IN THE NAME OF SMT. HARJEET KAUR AND SH.

HARJEET SINGH. THE PROPERTY BOUNDED AS :-NORTH: OTHER'S PROPERTY WEST: OTHER'S PROPERTY SOUTH: OTHER'S PROPERTY

EAST: GALI Date: 02.07.2022

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

Authorised Officer (Punjab & Sind Bank)

TREKKINGTOES.COM LIMITED

Regd Office: 236, Mahaveer Nagar 1st, Durgapura, Tonk Road, Jaipur-302018 (Raj) CIN No.: L63010RH2012PLC040995

Email id: sagar240791@gmail.com . Website - www.hippocabs.com NOTICE OF 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 9th Annual General Meeting of the shareholders of Trekkingtoes.com Limited will be held on Friday, 29th July, 2022 at 04:00 P.M. through video conferencing or Other Audio Visual Means ('OAVM') facility, in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 (the Act) and rules thereof, as amended read with MCA General Circular dated 14.12.2021 read with circulars dated 08.12.2021, 13.01.2021 and 05.05.2020 (collectively refereed as MCA Circulars) and the SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended

The Annual Report including the financial statements for the F.Y. ended 31,03,2021 alongwith the notice of AGM has been dispatched on 07.07.2022 to those members whose email addresses are registered with Company/RTA or with the respective depository participant. Members may take note that the notice of the AGM and annual report for the F.Y.2020-21 will also be available on the company's website www.hippocabs.com, website of the stock exchange that is www.bseindia.com Pursuant to the Provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (management

and administration) Rules, 2014 as amended, Regulation 44 of the SEBI (LODR), 2015 and SEBI Circular dated 09.12.2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 22.07.2022 may caste their vote electronically on the business as set out in the Notice of the AGM through e-voting platform.

The detailed procedure/ instructions for e-voting has contained in the notice of the AGM in this regard, the members are here by further notified that :

- (i) Remote e-voting shall commence from 26.07.2022 at 09:00 A.M. and shall end on 28.07.2022 at 05:00 P.M.
- (ii) Cut-off for the purpose of the voting shall be 22.07.2022 (iii) Any person who acquire share of the company and become member of the company after
- dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date may follow the same instruction as mentioned in the notice of the AGM for Remote E-voting
- (iv) Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 PM on 28.07.2022.
- (v) Members present at the meeting through VC/DAVM and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and otherwise not barred from doing so, shall be eligible to go through the voting system during the AGM. (vi) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/
- participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vii) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial
- the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. viii) Please keep your most updated email ID registered with the company or your depository participant to receive timely communications

owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be a entitle to avail

FOR TREKKINGTOES.COM LIMITED

Date: 06.07.2022 Place: Jaipur

Regd. Office: 27 BKC, C 27, G-Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai, Maharashtra, Pin Code-400 051, Branch Office: 7th Floor, Plot No.-7, Sector -125, Noida, U.P.-20131

publication of sale notice in Financial Express dated 06.07.2022 for Sale Of Immovable Property House No. 441, Gali No.6, Khasra No.142, Vill. - Bheem Nagar, Mawai, Paragana-Loni, Ghaziabad, U.P. pertaining to borrower/s Mr. Hemant Kumar & Mrs. Asha Rani, due to inadvertent typographical error, the heading of notice was incorrectly mentioned as "Online E-Auction Sale Of Asset" Instead Of "Sale Of Asset through Private Treaty". Please read the heading as "Sale of Asset through Private Treaty" for the aforesaid sale notice. **Authorized Officer** Place: Ghaziabad Date: 07.07.2022 Kotak Mahindra Bank Limited

PUBLIC NOTICE



HeroHousing Finance

We will be closing our branch situated at

Hero Housing Finance Limited

Second Floor, Shop No 3-4, Near Ambedkar Chowk, Kurukshetra, Haryana-136118

with effect from 31-Jul-2022

For any further details please contact:

customer.care@herohfl.com, Toll Free Number: 18002128800

Hero Housing Finance Limited CIN: U65192DL2016PLC301481

Regd Office: 9, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057

SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO Corporate Office: 425, Udyog Vihar Phase IV, Gurgaon-122015 (Haryana)

Shubham
Ph: 0124- 4212530/31/32, E-Mail: customercare@shubham.co website: www.shubham.co NOTICE U/S 13(2) OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

SAGAR AGRAWAL

DIRECTOR

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (HEREINAFTER CALLED 'ACT') It is to bring to your notice that your loan account has been declared as NPA by secured creditor Shubham Housing Development Finance Company Limited having its registered office at D-305, Ground Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi - 110017 (herein after called 'SHDFCL') and you are liable to pay total outstanding against your loan to SHDFCL You are also liable to pay future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost,

charges etc. Therefore, we hereby call upon you to discharge in full your liabilities to SHDFCL within 60 days from the date of this

notice failing which SHDFCL will be empowered to exercise the power under Section 13(4) of the ACT. The details of borrowers

S. No.	Loan Account No. Borrower(s) Name	Applicant Address	Demand Notice Amount & Date	Secured Asset	
1.	0GGN1812000005016894, Jitendra Kumar, Rekha Devi	House No. 210, Khandsa 104, Oreintal Craft Company Gurgaon Haryana-122004	Rs. 13,87,825/- & 28-06-2022	Property ID No. 187C616U204, Zone- 4, Under Abadi Lal Dora, Mauja Shivana, Begampur Khatola, Tehsil Kadipur, District Gurugram, Haryana - 122004	
2.	0GGN1711000005009205, Bharat Rana, Kailash Devi, Brij Mohan Rana	House No 670, Naai Wala Mohalla , Near Yadav Chaupal Chakkarpur, Gurgaon, Haryana -122002	Rs. 35,18,586/- & 28-06-2022	House No- 670, Abadi Lal Dora Village- Chakkar Tehsil & Distt-Gurgaon, Haryana - 122002	
3.	KHI_1504_038112 Neha Kaushik, Amit Kumar Kaushik	H.No. 41 - D, 3rd Floor, Pocket - 1 MIG Flats, Dilshad Garden, East Delhi - 110095	Rs. 13,85,557/- & 28-06-2022	Flat No. B9, Ground Floor, Khasra No. 1076/5/2/ Situated at Dilshad Extention No. 1, Dilshad Colo Village Jhilmi Tahirpur Illaqa Shahdara East Del 110095	
4.	0DEL1612000005003318, Mohd Nanne Khan, Shahnaz Parveen	H No-1053, Gali No-18, Nehru Vihar Mustafabad Delhi -110098 .	Rs. 8,00,178/- & 28-06-2022	H.No-1053, Gali No-18, Nehru Vihar Mustafabad, Delhi-110098.	
5.	0NHP1904000005019333, Harish Sharma, Sanjay Kumar	F 3/335, Sultan Puri, North West Delhi-110086.	Rs. 25,75,369/- & 28-06-2022	Property No. WZ-127, Plot No. 63, Mustatil No. 15 Killa No. 3, Village Keshopur Colony Sahib Pura, North West Delhi - 110086	
6.	0PRV2002000005026805, Uma Devi, Prem, Rameshvar	W 62, 13, Shankar Garden B- Block Vikaspuri, Uttam Nagar Metro Delhi -110018	Rs. 11,58,549/- & 28-06-2022	Property Bearing No. 98, Khasra No. 2/21/2 colony Known as G-III, Sai Enclave Mohan Garden, Uttam Nagar, West Delhi -110059	
7.	SHB_1310_012752, Nema Thamag, Riya Thamag	H.No. 98, New Aruna Nagar Majnu Ka Tila North Delhi -110054	Rs. 11,12,434/- & 28-06-2022	B - 114 , 1st Floor Khasra No. 11/1 & 12/1, Village Sahdulla Ganga Vihar Loni, Ghazlabad, Uttar Pradesh - 201102	
8.	SHB_1511_047809, Ankit Jain, Anii Kumar Jain	13/18, DLF Ankur Vihar Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102	Rs. 12,30,610/- & 28-06-2022	Flat No-GF-1, Ground Floor R H S Pl ot No-C-11/1 DLF Ankur Vihar Loni , Ghaziabad Uttar Pradesh - 201102	
9.	KHI_1602_052459, Mukesh Kumar, Suman Devi	132 K. Nangla Charandas Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 201301	Rs. 4,39,378/- & 28-06-2022	Out of Khasra No 84M VIII Nangala Ch arandas Te Dadri Distt Gautam Buddha Nagar Uttar Prad 201301	
10.	KHI_1504_037248, Rajnee Devi, Amit Soni	H No. 00, Bhatta Colony Nr Jan Seva Kendra Vill Salarpur Khadar Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh+201304	Rs. 7,39,327/- & 28-06-2022	Plot Bearing No 56, Khasra No 421, Khata No Village Devli Pargana & Tehsil Dadri Distt Gaut Buddha Nagar Uttar Pradesh 201306	
11.	MDG_1509_045038, Geeta Devl, Suraj Choudhary	1188, Krishna Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh - 201001	Rs. 2,98,146/- & 28-06-2022	Khasra No 1188/1, Village Sihani Sadiq Nagar Pargana Loni Tehsil and Distt Ghaziabad Uttar	

Pradesh 201301 OPRV1810000005015531. S/o Rambhode Gali No.1 Rs.16.46,998/- Plot No. 562/1, Khasra No. 1728 Min. Village Ram Naresh, Seetu Vishwakarma Coloney Modi Nagar & 28-06-2022 Begumabad Budhana, Gali No. 4, Mohalla Bhupende Near Railway Fatak Ghaziabad Puri, Tehsil Modi Nagar, Distt. Ghaziabad, Uttar Uttar Pradesh - 201204 SHB 1406 024375, H No.-222, IBBU KA Bhatta Near Rs. 12,27,750/-H No-326, Village Kaila Pargana Loni Teshil & Distt. Lalten Factory Ghaziabad Uttar & 28-06-2022 Shahnwaj, Jakara Khatun Ghaziabad Uttar Pradesh -201102 C-1/47 DLF Dilshad Ext Bhopura Rs. 6,51,349/-SHB 1110 000454, C-1/47, Ground Floor DLF Extn Bhopura, Sahihabad Subhash Chand Kasana, Sahihabad, Ghaziabad Uttar & 28-06-2022

Kavita Kasana 0REW1812000005016754, Bawdi Mohalla Tauru Road Pataudi, Rs. 7,49,958/-Waka Shivana, Mauja Under Abadi Lal Dora Village Jay Bhagwan, Ramesh Kumar Holi Maidan Ke Samne Gurgaon & 28-06-2022 Nanukula, Tehsil Pataudi, District Gurugram Harvana -122503

OMRT1710000005008808, Jiyaul Haq, Jaibujiya, Salimudin, Abbas Ali

PLACE: GURGAON. DATE: 06-07-2022

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL.

CHANDIGARH BENCH, CHANDIGARH

COMPANY PETITION NO.CP (CAA) NO. 25/Chd/Pb/2022

CONNECTED WITH

COMPANY APPLICATION NO. CP(CAA) NO.40/Chd/Pb/2021

Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises,

Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016

In the matter of Scheme of Arrangement

Hero Cycles Limited

(Petitioner Company No. 1/Demerged Company)

Hero Motors Limited

(Petitioner Company No. 2/Resulting Company)

Their Respective Shareholders and Creditors

NOTICE OF PETITION

A petition under section 230-232 of the Companies Act, 2013 ("Petition")

seeking sanction of the proposed Scheme of Arrangement between Hero

Cycles Limited (Petitioner Company No.1/Demerged Company) with

Hero Motors Limited (Petitioner Company No.2/Resulting Company)

(Petitioner Company No.1 and Petitioner Company No. 2 together

referred to as 'Petitioner Companies') and their respective shareholders

& creditors ('Scheme'), was presented by the Petitioner Companies

before the Chandigarh Bench of the Hon'ble National Company Law

Tribunal (Tribunal / NCLT), and was admitted by Hon'ble NCLT. Now, by

an order dated 13th May 2022 of the Hon'ble NCLT, the said petition is fixed

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should

send to the Petitioner Company No. 2 at the address mentioned below, a

notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocate, with

his/her name and address, and the Hon'ble NCLT at Ground Floor,

Corporate Bhawan, Sector-27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160019, not

later than two days before the date fixed for the hearing of the petition i.e.,

22nd July 2022. Where any person seeks to oppose the petition, the

grounds of opposition or a copy of his/her affidavit, shall be furnished with

such notice. A copy of the petition will be furnished by the Petitioner

Company No. 2 to any person requiring the same on payment of the

Sanjay Singh Suryavanshi

HERO MOTORS LIMITED

Hero Nagar, G.T. Road, Ludhiana,

Authorised Signatory

Punjab - 141 003

for hearing before the Hon'ble NCLT on 22nd July 2022.

prescribed charges for the same.

Date: 07th July 2022

Place: Ghaziabad

Ward No. 3. Niwari Dehat Near Rs. 5,86,965/-Shakeel Provision Store Ghaziabad & 28-06-2022 Ghaziabad Uttar Pradesh - 245101

Ward No.- 5, Pargana Jalalabad Tehsil Modinagar AUTHORIZED OFFICER.

SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LTD.

"FORM NO.URC-2" Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1)

of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014] Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application hasbeen made to the Registrar at Delhi that E-Social a partnership firm may be registered

. The principal objects of the company are As follows:

To act as a facilitator of a technology platform helping those who are seeking employment or work opportunity and those who are looking for people who are seeking an opportunity to work, to find and discover each other anywhere in the world but will not be responsible in any way for the authenticity of either party and will not get involved in the transaction itself as it is beyond the scope of activities.

To perform as a technology platform for self-development, personal, professional & social decision support, worldwide recruitment, socializing. learning, connecting global business, global professional, global skills market place where skilled people can offer their services to those who wish to employ them. Equipping organizations with HR technology that uses meta data

to ful fill their business needs, providing users with an online market place, a digital currency when the rules regarding the same are made clear by the government. To help job seekers, freelancers, consultants, professionals, contractors,

service providers to find people, companies, organizations who wish to hire them and vice versa. To assist people to connect for common interests and activities and

To receive subscriptions for using the platform but never charging a commission or any transaction fee from either party as there is no way of verifying the authenticity of users on the platform. The company will never get involved in any disputes with regards to transactions between users as no transaction is taking place on the platform, we are merely

professional, social & personal life including their health, wealth & emotional wellbeing. To promote & sell products that may benefit our users.

A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 160-B, Western Avenue Sainik Fams Delhi 110062.

Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at 4" Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company

Name(s) of Applicant

2. Saksham Sandhu 1. Adesh Kumar Gupta

Minda Corporation Limited

CIN: L74899DL1985PLC020401

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052 Corporate Office: D-6-11, Sector – 59, Noida – 201301, Uttar Pradesh **Telephone:** +91-0120 - 4442500

Website: www.sparkminda.com, E-mail: investor@mindacorporation.com

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on

Thursday, July 28, 2022 at 10:30 a.m.(IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"

NOTICE OF 37" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation, 2015 read with General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31 2020, General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No.21/2021 dated December 14. 2021 ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the AGM Notice which is circulated for convening the AGM. The Company has sent Notice of the AGM and Annual Report containing Financial Statements for the year ended March 31, 2022 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance and

Business Responsibility through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website at www.sparkminda.com at the link https://sparkminda.com/wpcontent/uploads/2022/07/Notice-of-37th-AGM-to-be-held-on-July-28-2022.pdf, https://sparkminda.com/wp-content/ uploads/2022/07/Annual Report 2021-22.pdf, respectively and on the website of Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling

them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated May 17, 2022. The

Company has availed the remote e-voting services as provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The

Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ranjeet Pandey (FCS-5922; C.P. No. 6087) (Ranjeet Pandey & Associates) as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member/list of beneficial owners received from NSDL & CDSL as on Friday, July 01, 2022. The remote e-voting period commences on Monday, July 25, 2022 (9:00 am IST) and end on Wednesday, July 27, 2022 (5:00 pm IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by them as on the cut-off date which is Friday, July 22, 2022. A person whose name is recorded in the

Meeting. A person who is not a Member as on the cut-off date should accordingly treat the Notice of AGM for information

register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e.

Friday, July 22, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General

Resolutions through e-voting are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to cast vote through remote e-voting system during the AGM. The Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM

Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not casted their votes on the

through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their votes again. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice has been sent through electronically by the Company, and holds shares as on cut-off date which is Friday, July 22, 2022, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL or Company's RTA. However, if a

member is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for voting. Members, who hold shares in physical form who have not registered their email address with the Company/Depository can obtain Notice of 37th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 37th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, be sending scanned copy of the following documents by email to investor@mindacorporation.com

- a) a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
- b) self-attested scanned copy of the PAN Card; and

Passport, AADHAR Card) in support of the address of the Member as registered with the Company Members holding shares in demat form are requested to update their email address/Electronic Bank Mandate with their Depository.

c) self-attested scanned copy of any document (such as Driving Licence, Bank Statement, Election Identity Card,

The Scrutinizer shall immediately after the conclusion of the voting at the 37th AGM, first download the votes cast at the AGM, thereafter unblock the votes casted through remote e-voting and shall make a Consolidated Scrutinizer's Report of the votes casted in favour or against, if any, and to submit the same to the Chairman of the AGM or a person

authorized by him not later than forty eight (48) hours from the conclusion of the AGM. The Results shall be declared forthwith after the submission of Consolidated Scrutinizer's Report either by the Chairman of the Company or by any person authorized by him in writing.

The detailed procedure for obtaining User id & Password is provided in the notice of AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user

manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated email id- evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with voting by electronic means. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management

and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, July 25, 2022 to Thursday, July 28, 2022 (both days inclusive) for the said AGM and for payment of Dividend, it approved at the ensuing AGM. The dividend on Equity Shares if declared at the meeting, will be credited/dispatched on or before Thursday August 25,

2022 to those members whose name shall appear on the Company's Register of Members on Friday, July 22, 2022. Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rate. For more details, please refer to the "Communication on TDS on dividend distribution" attached to the notice of 37th AGM

Minda Corporation Limited

Place: Delhi Date: 07.07.2022

Pardeep Mann **Company Secretary** M.No. A-13371

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Chola Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001 Branch Office: Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh,

POSSESSION NOTICE Under Rule 8 (1) WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column (B) below on dates specified in Column (C) to repay the outstanding amount indicated in Column (D) below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in

general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] nerein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 9 of the Rules made there under, The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance

Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

SL NO	NAME AND ADDRESS OF BORROWER & LOAN ACCOUNT NUMBER	DATE OF DEMAND NOTICE	OUTSTANDING	DETAILS OF PROPERTY POSSESSED	DATE OF POSSESSION
[A]	[B]	[C]	[D]	[É]	[F]
1.	Loan A/c No. No. XOHEDEI00003010238, XOHEDEI00003192410 HE02DEI00000005490 XOHEDEI00003010234, HE02DEI00000003288 and XOHEDEI00003192176) 1. DIGITAL RETAIL At:97, 2nd Floor, Bajaj House, Market, South Delhi, Delhi- 110019. 2. NEERAJJAJU, At: 2nd Floor, 97, Bajaj House, Market, South Delhi, Delhi- 110019. 3. SHREE NARSINGH EDUCATION CONSULTING PRIVATE LIMITED At: Plot NO-45 Parking BLK-BQ, Market, North West Delhi, Delhi - 110088 4. ANURAY JAJU At: House No-e-122,2nd Floor, Greater Kailash-1, New Delhi-110048 5. RITU JAJU At: 122, 2nd Floor, E-block, G K 1, Greater Kailash, Newdelhi-110048. 6. SARLA SARDA At: BQ-45, SHALIMAR BAGH, NEWDELHI-110088.	17.01.2022	Rs. 4,77,00,371.11 as on 17.01.2022	Entire Second Floor (without Terrace Rights), of Property bearing No. E-122 area measuring 208 sq.yds, Block -E, situated at Greater Kailash Part-I, New Delhi which is bounded as under East- Plot No. E-122 A West - Plot No. E-120 North- S. Road South - Road	07.2

Date: 07/07/2022 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

New Delhi





under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company In the matter of Sections 230-232 and other applicable provisions of the

> To provide a technology platform to help people worldwide in finding each other for their personal, social, business, or professional needs.

effectively in taking business decisions, providing data to organizations

support them in seeking feedback from their community to develop their goodness score.

facilitating discovery and are not involved in the transaction. To provide a framework for users to better manage their career,

Dated: 06.07.2022



सर्व साधारण को सचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नामः चिराग अग्रवाल, पुत्रः विपिन अग्रवाल, पताः ई-1/116बी शनि बाजार रोड, शिव राम पार्क, निहाल विहार, दिल्ली, उम्रः 21 साल, कदः 5'8" रंगः गेहंआ, चेहराः लम्बा, पहनावाः काली शर्ट एवं काली जींस, सफेद जुते पहने है, जो दिनांक 14.05.2022 से पुलिस स्टेशन निहाल विहार, दिल्ली क्षेत्र से लापता / अपहृत है। इस बाबत DD No. 89-A, दिनांक 15.05.2022, थानाः निहाल विहार, दिल्ली में दर्ज है।

चिराग अग्रवाल स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लॉपता/अपहृत व्यक्ति के बारे में कुछ मालुम नहीं हो पाया है। अगर किसी को भी इस लापता / अपहृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित पर सूचित करें।

वेबसाईटः http://cbi.nic.in थाना प्रमुख —मेल: cic@cbi.gov.in पुलिस स्टेशन, निहाल विहार, दिल्ली फैक्स: 011-23011334 फोनः 011-25946700, 25946710 DP/1853/0D/2022

गुमशुदा/अपहृत व्यक्ति की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नाम महेश कुमार गुप्ता पुत्र रामप्रसाद गुप्ता निवासी एम-542, मंगोलपुरी, दिल्ली **उम्र** : 39 साल, **कद** : 6', रंग : सांवला. चेहरा : अण्डाकार, जिसने सफेद रंग की लाइनदार कमीज, स्लेटी रंग की पैंट और पांव में हवाई स्लीपर पहने हुए है, दिनांक महेश कुमार गुप्ता 03.05,2022 से थाना मंगोलपुरी, दिल्ली के क्षेत्र से लापता/अपहृत है। इस संदर्भ में डीडी सं. 81-ए दिनांक 04.05.2022 थाना मंगोलपुरी, दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा/अपहृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें:--

ई-मेल: cic@cbi.gov.in वेबसाईट: http://cbi.nic.in फेक्स: 24368639, दुरभाष: 24368638/24368641

थानाध्यक्ष : थाना मंगोलपुरी, दिल्ली दूरभाष सं. 011-27921168, 27922186

सचना

केनरा बैंक Canara Bank 📣 पूर्वी पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली-110008

कब्जा—सूचना [धारा –3(4)]

(अचल संपत्ति के लिए)

2002 (2002 का अधिनियम 54) (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत केनरा बैंक के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 25.01.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणकर्ता मेसर्स होटल किंग पैलेस प्रोप. श्री नरेंद्र सिंह बत्रा पुत्र श्री हरभजन सिंह बत्रा को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 2,56,39,738.61 (रुपये दो करोड़ छप्पन लाख उन्तालीस) हजार सात सौ अड़तीस और इकसठ पैसे मात्र को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता और आम जनता को एतदद्वारा नोटिस

दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित,उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 जुलाई 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति पर विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर केनरा बैंक को रु. 2,56,39,738.61 (रुपये दो करोड छप्पन लाख उन्तालीस हजार सात सौ अडतीस और इकसठ पैसे मात्र) एवं उसपर ब्याज के प्रभार

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के

अचल संपत्ति का विवरण पंजीकरण उप–जिला–दिल्ली और जिला दिल्ली के अधीन श्री नरेंद्र सिंह बत्रा के स्वामित्व वाले 72 वर्ग गज

माप वाली प्लॉट खसरा नंबर 630 के बाहर, ब्लॉक—एच, गली नंबर 41, नैवाला, करोल बाग में 4 मंजिल

वाणिज्यिक संपत्ति संख्या 1955/41 सम्पत्ति के सभी भाग और अंश। दिनांक : 05.07.2022 अधिकृत अधिकारी,

स्थान : नई दिल्ली

(This is not a Prospectus Announcement. This is a Corrigendum Advertisement)



VEERKRUPA JEWELLERS LIMITED

(CIN: U36910GJ2019PLC109894)

Our Company was originally incorporated as Veerkrupa Jewellers Private Limited on September 13, 2019 under the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Subsequently the name of the company was changed from "Veerkrupa Jewellers Private Limited" to "Veerkrupa Jewellers Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on January 07, 2020 and had obtained fresh certificate of incorporation dated January 17, 2020 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. For details pertaining to the changes of name of our company and change in the registered office, please refer to the chapter titled 'History and Certain Corporate Matters' beginning on page no. 108 of this Prospectus.

Registered Office: Shop No. 7, Vrundavan Residency, Near Satyam School, Near Dharmnath Prabhu Society Naroda, Ahmedabad -382 330, Gujarat, India Tel: ++91 79 22981555/ 9157237631;

Website: www.veerkrupajewellers.com; E-mail: complianceveerkrupa@gmail.com

Contact Person: Mr. Ankit Purushottam Sanchiher, Company Secretary and Compliance Officer

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 30,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF VEERKRUPA JEWELLERS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE RS. 27/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 17/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 810.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OUT OF WHICH 1,52,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR A CASH PRICE OF RS. 27/ PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO RS. 41.04 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 28,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 27/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 768.96 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 38.15 % AND 36.22 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 186 OF THIS PROSPECTUS.

PROMOTER OF THE COMPANY:

MR. CHIRAG ARVIND SHAH AND MRS. NEHABEN CHIRAGBHAI SHAH ATTENTION INVESTORS- CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED JUNE 22, 2022

NOTICE TO INVESTORS

With regards to the SMS/ messages being circulated in the social media, speculating about the investment opportunity in our company's issue and about equity shares of our company being available at premium to the Issue price ("Message"). We wish to bring to attention of the investors that this Message has not been issued by our Company or any of our Directors, Promoters, Promoter Group or Group Companies. The Message in circulation is misleading & fraudulent advertisement and issued by a third party to sabotage the IPO, our Company or any of our Directors, Promoters, Promoter Group or Group Companies and the intermediaries are not involved in any manner whatsoever.

A first information report will be lodged by our Company with a police station to take up investigation in respect to circulation of the Message, under Section 67A of the Information Technology Act, 2000 and section 420 of the Indian Penal Code, 1860.

In relation to above, we wish to bring to attention of the investors that all bidders, have option to withdraw their Bids till July 08, 2022 till 5:00p.m. Investors should further note that Bidding in the Issue is closed on Tuesday, July 05, 2022, and accordingly no further Bids will be accepted in the Issue. Any Bids, after the Bid/Issue closure will be rejected. The above mentioned option to withdraw can be exercised by submitting a request for the same to the concerned Designated Intermediary, who shall assist in such withdrawal of Bid cum Application Form, prior to the finalization of the Basis of Allotment. Investors should note the revised

indicative timetable in respect of the Issue is set out below:				
Event	Indicative Date			
Finalisation of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange	On or before Wednesday; July 13, 2022			
Initiation of refunds/ unblocking of funds from ASBA Account	On or before Thursday; July 14, 2022			
Credit of the Equity Shares to Allottees	On or before Friday; July 15, 2022			
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges	On or before Monday: July 18, 2022			

Please note that capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning ascribed to them in the prospectus dated June 22, 2022.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE PROSPECTUS, THE APPLICATION FORMS, THE ABRIDGED PROSPECTUS AND GENERAL INFORMATION DOCUMENT SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM

Place: Ahmedabad

Date: July 06, 2022

www.readwhere.com

FOR VEERKRUPA JEWELLERS LIMITED On behalf of the Board of Directors

Mr. Chirag Arvindbhai Shah

Managing Director

स्थानः दिल्ली

तिथि: 07.07.2022

VEERKRUPA JEWELLERS LIMITED subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies. Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.focl.in, the website of the BSE i.e. www.bseindia.com, and website of the Issuer Company at www.veerkrupajewellers.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

OMKARA

'प्रपत्र सं. आइएनसी—26'

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे

राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष

उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा

(4) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में

श्री भोगिया जी पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ए-3/76, न्यू कॉडली, नई दिल्ली-110096 में स्थित है

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है

जिसमें कंपनी का रजिस्टीकत कार्यालय 'राष्टीय

स्थानांतरित करने के लिए तारीख 05.07.2022 को आयोजित

असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के

संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन मे

कंपनी के रजिस्टीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल क

एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का

प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के

ताथ अपनी आपत्ति होत्रीय निदेशक उत्तरी होत्र, को इस

सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (बौदह) दिनों के

रीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ

कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, फोन : 011-24366038,

फैक्स : 011-24366039, ईमेल आई डी rd.ser@mca.gov.in, पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज

सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ए-3/76, न्यू कोंडली,

नई दिल्ली-110096

गोगिया कमोडिटी ट्रेडिंग प्रा.लि.

CIN: U51909HR2002PTC053742

पंजी. कार्यालय: एस-15, बानी स्क्वॉयर, ब्लॉक-

ए, हिल्टन गार्डन, आईएनएन, सेक्टर-50,

गुडगाँव, हरि.-122018

फोन नं. 011-49418850,

ईमेल आईडी: accounts@gogiacap.com

प्रपत्र आईएनसी-26

िकम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के

नियम 30 के अनुपालन में]

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13 (4) तथा कंपनी

(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)ए के

मामले में

गोगिया कमोडिटी ट्रेडिंग प्रा. लि., जिसका पंजी. कार्यालयः

एस-15, बानी स्क्वॉयर, ब्लॉक-ए, हिल्टन गार्डन, आईएनएन

एतदद्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि

'हरियाणा राज्य'' से ''दिल्ली राज्य'' में उसके पंजीकृत

र्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बना

के लिए 04.07.2022 को आयोजित असाधारण आमसभा ग

पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ

एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21

पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र

आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के

प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति

तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र

द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-

2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई

दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत

पंजी. कार्यालयः एस-15, बानी स्क्वॉयर, ब्लॉक-ए, हिल्ट

कृते एवं के लिये

सतीश गोगिय

निदेशक

गोगिया कमोडिटी ट्रेडिंग प्रा.लि

गार्डन, आईएनएन, सेक्टर-50, गुड़गाँव, हरि.-122018

स्थानः गुरुग्राम

तिथि: 07.07.2022

दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय ग

सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

सेक्टर-50, गडगाँव, हरि.-122018 के मामले में।

तिथि : 07.07.2022

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से श्री मोमिया जी पेपर्स प्राईवेट लिमिटेन

हस्ता /

निवेशक

शर्मा (गारंटर); श्रीमती

वंधक)

स्थानः जयप्र

शर्मा (गारंटर/

राजीव कुमार जैन

डीआईएन : 08118397

संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं।

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में

वाविकाकत

ओमकारा एसेट्स रिकंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ९, एम.पी. नगर, पहली गली, कोंगु नगर एक्स्ट, तिरुपुर 641607 कॉर्पोरेट कार्यालयः सी/515, कनकिया जिलियन, एलबीएस रोड का जंक्शन व सीएसटी रोड चीकेसी एनेक्सी, कुरल (पश्चिम), मुंबई- 400070, दुरभाषः 022-265440, ईमेलः mumbai@omkaraarc.com/www.omkaraarc.com

परिशिष्ट- IV [नियम 8(1) को देखें] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, (ओएआरपीएल) के प्राधिकृत अधिकारी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति ब्याज अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ता को उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि की नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदायगी करने के लिए निम्न वर्णित तिथि को डिमांड नोटिस जारी किया था।

असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 25.06.2021 के अनुसार, उधारकताओं को आईबीएल द्वारा दी गई वित्तीय सहायता, साथ में उसके संबंध में सभी सुरक्षा हित और उसके संबंध में आईबीएल के सभी अधिकार के लिए इंडसइंड बैंक लिमिटेड (इसके बाद "आईबीएल" के रूप में संदर्भित) ने ओमकारा एसेट रिकंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "ओएआरपीएल" के रूप में संदर्भित) को सरफेसी अधिनियम की धारा 5 के तहत सींपा है।

कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के प्रतिभति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। कर्जदारों को विशेष और जनता को सामान्य तौर पर संपत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्वारा सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-

देन के लिए ओमकारा पीएस06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए ओएआरपीएल के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर/ बंधक का नाम	प्रतिभृतित परिसंपत्ति का विवरणः	डिमांड नोटिस की तिथि	करूजे की तिथि	डिमांड नोटिस में गणि
	श्री सुभाष जाखड़ के स्वामित्व में प्लॉट नंबर बी-162, त्रिवेनी नगर, स्कीम ग्राम पिथावस और नियावर, व्लॉक बी, ग्राम राजवास, सिकर रोड, जयपुर, राजस्थान में 209.62 वर्ग यार्ड।	13.03.2022	05.07.2022	39,84,297.96 के. (उनतालीस लाख
जाखड़ (गारंटर∕बंधक);		चौरासी हजार दो सी सत्तानयें कियानयें पैसे) जो 31,05,2021 को है के साथ नविष्य की ब्याज औं लागत, शुल्क और खर्चों, मांग नोटिस जारी करने के बाद किए गए प् कम करके, यदि कोई हो, संपूर्ण स्रकाया की अदायगी और वस्ती		
धारकर्ता मै. इलेक्ट्रो रंकशन, श्रीमती मनीषा वर्मा गारंटर), श्री राजीव कुमार र्मा (गारंटर/बंधक), श्री रंजीव कुमार वर्मा (गारंटर/ धक)	श्री संजीव वर्मा और श्री राजीव वर्मा के स्वामित्व में पी. नं. 868-सी, देवी नगर, न्यू संगानेर रोड, सोडला, जयपुर में 113.33 वर्ग यार्ड।	14.03.2022	05.07.2022	86,97,838.82 रू (छियासी लाख सत्तानवें हजार आठ सौ अड़तीस रुपए तथा वियासी
		पैसे) जो 31.05.2021 को है के साथ भविष्य की क्याज और उस पर लाग शुक्क और खर्चों, मांग नोटिस जारी करने के बाद किए गए भुगतान को ब करके, यदि कोई हो, संपूर्ण सकाया की अदायगी और चसुली तक।		
उधारकर्ता मैं. एस डी एंटरप्राइंजेज (उधारकर्ता/	मैं. एसडी एंटरप्राईंजेज के स्वामित्व में शॉप सह गोदाम नंबर केए- 9 प्लेटफॉर्म के साथ, सुरजपोल अनाज मंडी कैंपस, जयपुर, राजस्थान में 362.45 वर्ग मीटर	1110012022 0010112022		
धक), श्री सुरेश कुमार डेलवाल (भागीदार/ गारंटर); शीतल कुमार भागीदार/गारंटर); श्री ऑकत मा (भागीदार/ गारंटर); श्रीमती सेज खंडेलवाल (गारंटर)		पैसें) जो 31.05.2021 को है के साथ मविष्य की ब्याज और उस पर ल		
	श्रीमती शशि देवी के स्वामित्व में प्लॉट	14.03.2022	05.07.2022	75,88,884,78 रू. (पचहत्तर लाख अठासी

नं ए-7-ए, स्कीम नं. 12ए, न्य

कॉलोनी, विजय बडी, सिकर रोड,

जयपर, राजस्थान में 100.83 चर्ग यार्ड

करके, यदि कोई हो, संपूर्ण बकाया की अदायगी और वसुली तक। प्राधिकृत अधिकार्ग तिथि: 06.07.2022 ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएस०६/2021-22 इस्ट के इस्टी के रूप में कार्य करते हुए

पैसे) जो 31.05.2021 को है के साथ भविष्य की ख्याज और उस पर लागत

शुल्क और खर्चों, मांग नोटिस जारी करने के बाद किए गए भुगतान को कम

SPARK MINDA

मिण्डा कॉर्पोरेशन लिमिटेड CIN:L74899DL1985PLC020401

पंजीकृत कार्यालयः ए-15, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052

कॉर्पोरेट कार्यालयः डी-6-11, सेक्टर-59, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश दूरभाष नं. : +91-0120-4442500

वेबसाईटः www.sparkminda.com, ईमेलः investor@mindacorporation.com

37वीं वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 37 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी क्रमशः साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्यूलर सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्यूलर सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, साधारण सर्क्युलर सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, साधारण सर्क्युलर सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, साधारण सर्क्युलर सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा साधारण सर्क्युलर सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 (''एमसीए सर्क्युलर्स'') के साथ पठित सेबी सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी सर्क्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई,2 020, सर्क्युलर नं.

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सर्क्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (''सेबी सर्क्युलर'') के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''वीसी/ओएवीएम'') सुविधा द्वारा बृहस्पतिवार, 28 जुलाई, 2022 को 10.30 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में किसी सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम के आमंत्रण के लिये भेजी जा रही एजीएम की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित

कम्पनी ने उपरोक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 तथा 13 मई, 2022 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों सहित एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेज दी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.sparkminda.com पर क्रमशः https://sparkminda.com/wp-content/uploads/2022/07/Notice-of-37th-AGM-to-be-held-on-July-28-2022.pdf, https://sparkminda.com/wp-content/ uploads/2022/07/Annual Report 2021-22.pdf लिंक पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी भी उपलब्ध होगी।

यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, जिससे वे 17 मई, 2022 की एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री रंजीत पांडे (एफसीएस-5922; सी.पी. सं. 6087) (रंजीत पांडे एंड एसोसिएट्स) को स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। नोटिस उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनके नाम शुक्रवार, 01 जुलाई, 2022 तक एनएसडीएल और सीडीएसएल से प्राप्त सदस्य रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में शामिल हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 25 जुलाई, 2022 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी और बुधवार, 27 जुलाई, 2022 (5:00 बजे अप. भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, जो शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 है, को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे तदनसार एजीएम की सचना को केवल सचना के उद्देश्य से मानना चाहिए। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला था, अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं किया गया है, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के पात्र होंगे जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट-ऑफ तिथि शक्रवार, 22 जलाई, 2022 को शेयर रखता है, वह एनएसडीएल या कंपनी के आरटीए को अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोटिंग के लिए किया जा सकता

जिन सदस्यों के पास भौतिक प्रारूप में शेयर हैं जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे 37वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा/अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 37वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण investor@mindacorporation.com पर ई-मेल द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियाँ भेजकर प्राप्त कर सकते हैं

(क) अपने नाम, फोलियो नम्बर तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित निवेदन पत्र

(ख) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति: तथा

(ग) कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में किसी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक विवरण, चुनाव पहचान प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड) की स्कैन्ड प्रति।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट अपने डिपॉजिटरी के साथ अपडेट

37वीं एजीएम में मतदान के समापन के तरंत बाद स्क्रटिनाइजर पहले एजीएम में डाले गए वोटों को डाउनलोड करेगा. उसके बाद रिमोट

ई–वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए वोटों की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे एजीएम के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष एजीएम के समापन से अधिकतम अडतालीस (48) घंटे के बाद प्रस्तृत करना होगा।

कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा समेकित संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तत करने के बाद परिणाम तत्काल घोषित किए जाएंगे।

युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs)

for Shareholders AüSX e-Voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013, निर्दिष्ट ईमेल आईडी- evoting@nsdl.co.in ¹ff pallavid@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर पर:- +91 22 24994545, +91 22 24994559 से संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान करेंगे। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी

(सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के नियम 42 के अनुसार, उक्त एजीएम के लिए और यदि आगामी एजीएम में अनुमोदित हो तो लाभांश के भुगतान के लिए सदस्यों का रजिस्टर और शेयर कंपनी की ट्रांसफर बुक सोमवार, 25 जुलाई, 2022 से गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगी।

बैठक में घोषित होने पर इक्विटी शेयर पर लाभांश उन सदस्यों के पास बहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022 तक या इससे पर्व उन सदस्यों को जमा/भेज दिये जायेंगे जिनके नाम शुक्रवार 22 जुलाई, 2022 तक सदस्यों के कम्पनी के रजिस्टर में अंकित होंगे। लाभांश का भूगतान लागू दर पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के अधीन होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया 37वीं एजीएम की सूचना के साथ संलग्न ''लाभांश वितरण पर टीडीएस पर कम्युनिकेशन'' देखें।

मिण्डा कॉर्पोरेशन लिमिटेड हस्ता./-परदीप मान कम्पनी सचिव

सदस्यता सं. ए-13371

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 06.07.2022

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, 2016 की

धारा 102 (1) और (2) के तहत)

श्री नवल किशोर सक्सेना (मैसर्स जिलियन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर)

के लेनदारों के ध्यानार्थ (U27209DL1986PTC023662)

प्रासोगक विवरण लेनदार/व्यक्तिगत जमानती का नाम श्री नवल किशोर सक्सेना 79, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 आवेदन स्वीकार करने के आदेश का विवर सीपी सं. IB-745 (PB)/ 2021 में IA-2497/PB/2022

ई-मेल : rkg.delhi.ca@gmail.com

701, विक्रान्त टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-

वेब लिंकः https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

दूरभाष : 011 -47100179

आदेश दिनांक 05.07.2022 श्री राकेश कुमार गुप्ता पंजीकत किये जाने हैं पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00833/2017-18/11418 701, विक्रान्त टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-बोर्ड के साथ रजिस्टीकत समाधान पेशेवर का

पता और ई-मेल ई-मेल : rp.pg.zillion@gmail.com दूरभाष : 011-47100179 दावे जमा करने की अन्तिम तिथि 28/07/2022 8 प्रासंगिक प्रपत्र की उपलब्धता जिनमें दावे ''प्रपत्र बी''

6 समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त

दाखिल किये जाने हैं।

स्थान : नई दिल्ली

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 05.07.2022 को श्री नवल किशोर सक्सेना (मैसर्स जिलियन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत जमानती) की शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है। एतद्वारा श्री नवल किशोर सक्सेना (मैसर्स जिलियन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत जमानती) के लेनदारों को प्रविष्टि सं. 6 के सम्मख उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण

28.07.2022 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है। लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्टॉनिक साधनों या डाक द्वारा प्रस्तत करना होगा। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

राकेश कुमार गुप्ता पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00833/2017-18/11418 दिनांक : 06.07.2022 701, विक्रान्त टॉवर 4, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

MARUTI & SUZUKI

मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड CIN: L34103DL1981PLC011375

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं.1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, इंडिया फोन: +91 (11) 46781000; फैक्स: +91 (11) 46150275/76 वेबसाइटः www.marutisuzuki.com; ई-मेलः investor@maruti.co.in

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारको के ध्यान के लिए) विषयः निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते में इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण यह सूचना कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसुचित

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफण्ड) संशोधन नियम, 2016 ("नियम") के तहत प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित हुई है। इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भूगतान या दावा नहीं किया गया है ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और सरंक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है। कंपनी ने ऐसे सभी शेयरों के घारकों को जिनके शेयर उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित होने संभावित हैं उन्हें उचित कार्यवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है।

कंपनी ने ऐसे शेयरघारकों और आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट www.marutisuzuki.com पर अपलोड कर दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि अदत्त / बेदावा लामांश के विवरण और शेयरों जो आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वे वेबलिंक https://www.marutisuzuki.com/corporate/investors/events देखें।

शेयरघारक ध्यान दें कि अदत्त / बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित समी लामों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्घारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता हैं। संबंधित शेयरधारकों से 30 सितम्बर, 2022 तक कंपनी को कोई संचार प्राप्त न होने की

परिस्थिति में, कंपनी संबंधित शेयरों को आईईपीएफ सस्पेंस खाते को नियत तारीख पर हस्तांतरण कर देगी जैसे नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अगर शेयरघारकों का इस विषय पर कोई भी सवाल है, तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार और

ट्रांसफर एजेंट **केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**, श्री राजकुमार काले, सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट नं. 31–32, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलींगापल्ली हैदराबाद-**500032**, फोन: 040-67162222. फैक्स: 040-23001153 टोल फ्री नं: 1800-309-4001 ई—मेलः einward.ris@kfintech.com; वेबसाइटः www.kfintech.com से संपर्क करें।

वास्ते मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः ०६ जुलाई, २०२२ कंपनी सचिव

एबीएम इण्टरनेशनल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 10/60, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 दूरभाष : 011-41426055, वेबसाइट : www.abmintl.in, ई-मेल : vkgandhi@abmintl.in, सीआईएन : L51909DL1983PLC015585

एजीएम की सुचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना दिनांक 5 जुलाई, 2022 में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए एबीएम इण्टरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से शनिवार, 6 अगस्त, 2022 को 2.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी। एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट अलग से इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.abmintl.in और वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण का कार्य 05 जुलाई, 2022 को पूरा कर लिया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं की सुविधा के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') के साथ एक समझौता किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और नियमों के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है: 1. नोटिस भेजने के पूरा होने की तिथिः जुलाई 5,2022

2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान शुरू होने की तिथि और समयः बुधवार, 3 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 9:00

3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान समाप्त होने की तिथि और समयः शुक्रवार, 5 अगस्त, 2022 शाम 5.00 बजे 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमित शुक्रवार, 5 अगस्त, 2022 को सायं 5.00 बजे के बाद नहीं

5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 30 जुलाई, 6. सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम

बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. वे व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ सामान्य बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। 8. सदस्य ध्यान दें किः क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और

समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा: ख) 39वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे 39वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना

9. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 30 जुलाई, 2022 को शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com या जारीकर्ता/आरटीए के पास हेल्पडेस्क पर एक अनुरोध

भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। 10.39वीं एजीएम की सचना कंपनी की वेबसाइट www.abmintl.in और www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। 11.इलेक्टॉनिक वोटिंग निर्देश के लिए. शेयरधारक 39वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों को पढ सकते

हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, शेयरधारक www.evotingindia.com के हेल्प खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) और E-Voting User Manual for shareholders का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 022-23058542/43 पर कॉल करें। कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी सदस्यों को इलेक्टॉनिक रूप से नोटिस

(दस्तावेजों)/दस्तावेज/वार्षिक रिपोर्ट की सर्विसिंग को सक्षम करने के लिए अपना ई-मेल पता उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए अनुरोध कंपनी या आरटीए को भेजा जाना चाहिए और डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजा जाना चाहिए।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार आगे नोटिस दिया जाता है कि वित्त वर्ष 2021-2022 की एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 30 जुलाई, 2022 से 6 अगस्त, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक

एमसीए परिपत्रों के आलोक में, जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है और परिणामस्वरूप एजीएम की सचना प्राप्त नहीं कर सके और वार्षिक रिपोर्ट अपना ई-मेल पंजीकृत करवा सकते हैं। ऐसे सदस्यों को एजीएम की इस सुचना और वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीकृत शेयरधारकों के नाम, फोलियो नम्बर, डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी तथा इक्विटी शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए ई-मेल द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी बीटेल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को investor@beetalfinancial.com पर अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें ताकि वे सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से 5 जुलाई, 2022 की एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय पर अपने मतदान का प्रयोग कर सकें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्टॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से और भौतिक होल्डिंग्स के संबंध में, कंपनी के आरटीए मैसर्स बीटल फाइनेंशियल कंप्यटर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, 3डी मंजिल, बीटल हाउस, ९९, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, मदनगीर गांव, मदनगीर, नई दिल्ली-110062 के पास, नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना ई-मेल पंजीकृत करा लें। बोर्ड की आज्ञानुसार

वीरेन्द्र कुमार गांधी

(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) डीआईएन नं. 00244762

